

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं 131] नई दिल्ली, मंगलवार जून 19, 1979/ज्येष्ठ 29, 1901
No. 131] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 19, 1979/JYAISTHA 29, 1901

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

वाणिज्य, मागरीक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 19 जून, 1979

निर्धारित व्यापार निबंधन

सार्वजनिक सूचना सं. 42-ईटीसी(पी.एन)/79

विषय :—7-3-1979 से पूर्व की गई संविदाओं के मद्दे मानव अस्थि पंजर का निर्यात।

[मिसल सं. 49/1/79-ई 2] :—उपर्युक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना सं. 25 ईटीसी(पी.एन)/79 दिनांक 7 मार्च, 1979 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि सार्वजनिक सूचना सं. 25 ईटीसी(पी.एन)/79 दिनांक 7-3-1979 के जारी होने से पूर्व पहले से की गई पक्की संविदाओं के मद्दे मानव अस्थि पंजरों के निर्यात की अनुमति दी जाए। ऐसे मामलों में जहाँ 7-3-1979 से पूर्व संविदाएं कर दी गई थी वहां राख पत्र और पुलिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से बिना जोर नहीं डाला जाएगा।

सी. बेंकटरमन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

**MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND
CO-OPERATION**

(Department of Commerce)**ORDER**

New Delhi, the 19th June, 1979

EXPORT TRADE CONTROL**PUBLIC NOTICE NO. 42-ETC(PN)/79**

Subject : Export of human skeletons against contracts entered into prior to 7-3-1979.

[F. No. 49/1/79-E. II] .—Attention is invited to Public Notice No. 25-ETC(PN)/79 dated the 7th March, 1979, on the above subject.

2. On a review of the situation, it has been decided to allow the export of human skeletons against firm contracts already entered into prior to the issue of Public Notice No. 25-ETC(PN)/79 dated 7-3-1979. Letter of Credit and police certificate in such cases where firm contracts had been entered into prior to 7-3-79 need not be insisted upon.

C. VENKATARAMAN,

Chief Controller of Imports & Exports.

Ex Pt 1 Sec 1
131